

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 314] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 1973/पौष 10, 1895

No. 314] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 1973/PAUSA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December 1973

**G.S.R. 544(B).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3), (4) and (5) of section 3 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Central Government hereby constitutes the Council of Architecture, with effect from the date of publication of this notification in the official gazette, which shall consist of the following members, namely :—

1. Shri J. R. Bhalla, 18/90, Connaught Circus, New Delhi.
2. Shri Jamshed B. Aga, President, I.I.A., Advani Chambers, Sir P.M. Road, Fort, Bombay-1.
3. Shri Homi N. Dallas, M/s. Parelkar and Dallas, Chartered Architects, Meadows House, Meadows Street, Fort, Bombay-1.
4. Shri Malik A. Omer, 112, Stephen House, Dalhousie Square, Calcutta-1.
5. Shri Arun Ogale, 327, Nawab Building, 1st floor, D. N. Road, Fort, Bombay-1.
6. Prof. T. J. Manickam, Director, School of Planning and Architecture, 4, Block B, Indraprastha Estate, New Delhi-1.
7. Prof. B. V. Doshi, Principal, School of Architecture, Navrangpura, Ahmedabad-9.

Nominated to the first Council by the Central Government under sub-section (4) of section 3.

Nominated by the All India Council for Technical Education under clause (b) of sub-section (3) of section 3.

8. Prof. F. B. Pithavadian, Director, School of Architecture and Planning, C/o A.C. College of Technology, Guindy, Madras-25.
9. Prof. D. Banerjee, Principal, Bengal Engg. College, Howrah.
10. Prof. Aditya Prakash, Principal, Chandigarh College of Architecture, Chandigarh.
11. Prof. S. R. Solanki, Principal, M. A. College of Architecture, Bhopal.
12. Prof. A. K. Chatterjee, Principal, Sir J.J. College of Architecture, Bombay.
13. Shri H. Rahman, Chief Architect, C.P.W.D., Ministry of Works and Housing, Nirman Bhavan, New Delhi.
14. Shri L. S. Kumawat, Chief Architect, Army Headquarters, Engineer-in-Chief's Branch, D.H.Q.P.O., New Delhi-11.
15. Chief Architect, Ministry of Railways, Rail Bhavan, New Delhi.
16. Shri A. B. Chandiramani, Joint Educational Adviser (T), Ministry of Education & Social Welfare, Shastri Bhavan, New Delhi.
17. Shri M. C. Hatikakoty, Architect, Govt. of Assam, P.W.D., Chief Engineer's Office, Chandmari, Gauhati-3 (Assam).
18. Shri D. R. Parandekar, Architect, Government of Bihar, Public Works Deptt., Patna.
19. Shri R. R. Handa, Government Senior Architect of Haryana, Public Works Department, Chandigarh.
20. Shri M. H. Siddiqi, Senior Architect, Government of Jammu and Kashmir, Gogji Bagh, Srinagar, Kashmir.
21. Shri M. Ramaswamy Iyer, Senior Architect, Office of the Chief Engineer, Buildings and Roads, P.W.D., Trivandrum-1 (Kerala).
22. Shri N. H. Dharangadharia, Chief Architect, Govt. of Madhya Pradesh, P.W.D., North T.T. Nagar, Bhopal (Madhya Pradesh).
23. Shri Grover C. R. Marak, Asstt. Town Planner, Office of the Town Planner-cum-Director of Housing, Shillong-1 (Meghalaya).
24. Shri D. A. Jayawant, Architect, Govt. of Maharashtra, B.X.C.D., Bombay-1.
25. Shri L. M. Singh, Asstt. Architect, Govt. of Manipur, P.W.D., Manipur.
26. Shri V. H. Rao Naidu, Chief Architect, Govt. of Mysore, P.W.D. Office, Bangalore-1.
27. Shri Adikanda Biswal, Government Architect, Office of the Chief Engineer, Roads and Buildings, Orissa, Bhubaneswar.
28. Shri Surjit Singh, Senior Architect, Government of Panjab, P.W.D., B&R/P.H. Branch, Chandigarh.
29. Shri B. Kambo, Chief Town Planner and Architecture, Rajasthan, Jaipur.
30. Shri T. K. Deb Barma, Architect, Govt. of Tripura, Public Works Deptt., Agartala.
31. Shri A. M. Lobo, Senior Architect, Govt. of U.P., P.W.D., Lucknow.
32. Shri B. N. Banerjee, Architect, Govt. of West Bengal, P.W.D., Writers Buildings, Calcutta-1.
33. Dr. V. J. Mistry, Architect, Govt. of Gujarat, 8-A, Multistorey Building, Lal Darwaja, Ahmedabad-380001.
34. Senior Architect, Govt. of Himachal Pradesh, P.W.D., Simla-2.
35. Shri Raghukul Prasad, Chief Architect, Govt. of Andhra Pradesh, P.W.D., Hyderabad-22.

Elected by the heads of architectural institutions in India under clause (c) of sub-section (3) of section 3.

Ex-Officio members under clause (c) of sub-section (3) of section 3.

Nominated by the Central Government under clause (e) of sub-section (3) of section 3.

Nominated by the State Government concerned under clause (f) of sub-section (3) of section 3.

36. Shri Murugesan, Deputy Chief Architect, Govt. of Tamil Nadu, P.W.D., Madras. Nominated by the Central Govt. in consultation with the State Governments concerned to the first Council under sub-section (5) of section 3.
37. Shri J. G. Bodhe, Architect & Engineer, 24-26, Dalal Street, Fort, Bombay-1. }  
 38. Shri C. R. Narayana Rao, Chartered Engineer, 6-G, Karpagambal Nagar, Luz, Mylapore, Madras-600004. } Nominated by the Institution of Engineers (India) under clause (g) of sub-section (3) of section 3.
39. Shri P. N. Gadi, 5-B, Lajpat Rai Road, Jangpura Extension, New Delhi-14. Nominated by the Institution of Surveyors of India under clause (h) of sub-section (3) of section 3.

2. The Central Government hereby further specifies that the members nominated under sub-sections (4) and (5) of the aforesaid section shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the official Gazette or until their successors have been duly elected and nominated, respectively, whichever is earlier.

[No. F. 12-5/72 TL.]

A. B. CHANDIRAMANI,  
Joint Educational Adviser.

### शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

( शिक्षा विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1973

सं० का० नो० 544(अ).—वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 3 की उपधारा (1), (3), (4) तथा (5) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन० द्वारा, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से, वास्तुकला परिषद् का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

1. श्री जे० आर० भल्ला,  
18/90, कनाट मार्केट, नई दिल्ली ।
2. श्री जयसैद बी० आगा,  
अध्यक्ष, आई० आई० ए०, अडवाणी  
वेम्बर्स, सर पी० एम० रोड, फोर्ट,  
बम्बई-1
3. श्री होमी एन० डल्लास,  
मैमर्स परेलकर एण्ड डल्लास, चार्टर्ड  
वास्तुकार, मैडोज हाउस, मैडोज स्ट्रीट,  
फोर्ट, बम्बई-1
4. श्री मलिक ए० ओमेर,  
112, स्टीफेन हाउस, डलहौजी स्क्वेयर,  
कलकत्ता-1
5. श्री अरुण आंगाने,  
327, नवाब भवन, पहली मंजिल,  
डी० एन० रोड, फोर्ट बम्बई-1

केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की  
उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रथम  
परिषद् के लिए नामजद।

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p>6. प्रो० श्री टी० जे० मानिकम,<br/>निदेशक,<br/>योजना तथा वास्तुकला स्कूल, 4, ब्लाक<br/>बी० इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली-1</p> <p>7. प्रो० बी० बी० दोषी,<br/>प्रधानाचार्य,<br/>वास्तुकला स्कूल, नव रंगपुरा,<br/>अहमदाबाद-9</p>  | } | <p>अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा<br/>परिषद् द्वारा धारा 3 की उपधारा<br/>(3) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत<br/>नामजद ।</p>                 |
| <p>8. प्रो० एफ० बी० पीडावाडियान,<br/>निदेशक,<br/>वास्तुकला तथा योजना स्कूल, द्वारा<br/>ए० सी० प्रौद्योगिकी कालेज, गुड्डडी,<br/>मद्रास-25</p> <p>9. प्रो० डी० बनर्जी,<br/>प्रधानाचार्य,<br/>बंगाल इंजीनियरिंग कालेज,<br/>हावड़ा ।</p> <p>10. प्रो० आदित्य प्रकाश,<br/>प्रधानाचार्य,<br/>चण्डीगढ़ वास्तुकला कालेज,<br/>चण्डीगढ़ ।</p> <p>11. प्रो० एम० आर० सोलंकी<br/>प्रधानाचार्य,<br/>एम० ए० वास्तुकला कालेज,<br/>भोपाल ।</p> <p>12. प्रो० ए० के० चटर्जी,<br/>प्रधानाचार्य,<br/>सर जे० जे० वास्तुकला कालेज,<br/>अम्बई ।</p> | } | <p>धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड<br/>(ए) के अन्तर्गत भारत में वास्तु-<br/>शिल्पीय संस्थाओं को अध्यक्षों<br/>द्वारा चुने गए ।</p> |
| <p>13. श्री एच० रहमान,<br/>मुख्य वास्तुकार, केन्द्रीय लोक निर्माण<br/>विभाग, निर्माण तथा आवास मंत्रालय,<br/>निर्माण भवन, नई दिल्ली ।</p> <p>14. श्री एल० एस० कुमावत,<br/>मुख्य वास्तुकार, सेना मुख्यालय, मुख्य-<br/>इंजीनियर शाखा, डी० एच० क्यू० पी०<br/>ओ०, नई दिल्ली-11</p> <p>15. मुख्य वास्तुकार,<br/>रेलवे मंत्रालय, रेलवे भवन, नई दिल्ली ।</p>  | } | <p>खण्ड 3 के उपखण्ड (3) की<br/>धारा (घ) के अन्तर्गत पदेन<br/>मदस्य ।</p>  |

16. श्री अ० ब० चन्दीरामाणी,  
संयुक्त शिक्षा सलाहकार, शिक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की  
तथा समाज कल्याण मंत्रालय, शास्त्री उपधारा (3) के खंड (ड) के  
भवन, नई दिल्ली -1 अन्तर्गत नामजद ।
17. श्री एम० सी० हमिकाफोटी,  
वास्तुकार, असम सरकार,  
लोक निर्माण विभाग, मुख्य इंजीनियर  
का कार्यालय, चांदयारी, गोहाटी-3,  
(असम) ।
18. श्री डी० आर० परन्डेकर,  
वास्तुकार, बिहार सरकार,  
लोक निर्माण विभाग, पटना ।
19. श्री आर० आर० हांडा,  
वरिष्ठ वास्तुकार, हरियाणा सरकार,  
लोक निर्माण विभाग, चण्डीगढ़ ।
20. श्री एम० एच० सिद्धीकी,  
वरिष्ठ वास्तुकार, जम्मू तथा काश्मीर  
सरकार, गोगजी बाग,  
श्रीनगर, काश्मीर ।
21. श्री एम० रामास्वामी अय्यर,  
वरिष्ठ वास्तुकार, मुख्य इंजीनियर का  
कार्यालय, भवन तथा सड़क लोक निर्माण  
विभाग, त्रिवेन्द्रम-1 (केरल) ।
22. श्री एन० एच० धंगाधारिया,  
मुख्य वास्तुकार,  
मध्य प्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग,  
नार्थ टी०टी० नगर, भोपाल (मध्य प्रदेश)
23. श्री गिरोबर सी० आस्त्र भरक,  
सहायक नगर आयोजक, नगर आयोजक  
और आवास निदेशक का कार्यालय,  
शिलांग-1 (मेघालय) ।
24. श्री डी० ए० जयवंत,  
वास्तुकार, महाराष्ट्र सरकार,  
वी० एक्स० सी० डी०, बम्बई-1
25. श्री एल० एम० सिंह  
सहायक वास्तुकार, मणिपुर सरकार,  
लोक निर्माण विभाग, मणिपुर ।

संबंधित राज्य सरकार द्वारा  
धारा 3 की उपधारा (3) के  
खंड (ख) के अन्तर्गत नामजद ।

26. श्री बी० एच० राव नायडू,  
मुख्य वास्तुकार, मैसूर सरकार,  
लोक निर्माण विभाग कार्यालय,  
बंगलूर-1
27. श्री अदिकांडा त्रिमवाल,  
राजकीय वास्तुकार,  
मुख्य इंजीनियर का कार्यालय,  
सड़क तथा भवन उड़ीसा, भुवनेश्वर ।
28. श्री गुरुजीत सिंह,  
वरिष्ठ वास्तुकार, पंजाब सरकार,  
लोक निर्माण विभाग, बी० एण्ड आर०/  
पी० एच० शाखा, चण्डीगढ़ ।
29. श्री बी० कम्बो,  
मुख्य नगर आयोजक तथा वास्तुशिल्पीय  
राजस्थान, जयपुर ।
30. श्री टी० के० देव वर्मा,  
वास्तुकार, त्रिपुरा सरकार, लोक निर्माण  
विभाग, आगरतला ।
31. श्री ए० एम० लोबो,  
वरिष्ठ वास्तुकार,  
उत्तर प्रदेश सरकार, लोक निर्माण  
विभाग, लखनऊ ।
32. श्री बी० एन० बनर्जी,  
वास्तुकार,  
पश्चिम बंगाल सरकार, लोक निर्माण  
विभाग, राईटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता ।
33. डा० पी० जे० मिस्त्री,  
वास्तुकार, गुजरात सरकार,  
8-ए० बहुमंजिल भवन, लाल दरवाजा,  
अहमदाबाद-380001
34. वरिष्ठ वास्तुकार,  
हिमाचल प्रदेश सरकार,  
लोक निर्माण विभाग, शिमला-2
35. श्री रघुकुल प्रसाद,  
मुख्य वास्तुकार,  
आन्ध्र प्रदेश सरकार, लोक निर्माण  
विभाग, हैदराबाद-22

सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा धारा  
3 की उपधारा (3) के शृङ्ख  
(च) के अन्तर्गत नामजद ।

36. श्री मुरुगेसन,  
उप मुख्य वास्तुकार,  
लोक निर्माण विभाग,  
मद्रास ।

सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श-  
से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा  
3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत  
प्रथम परिषद् के लिए नामजद ।

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p>37. श्री जे० जी० बांबे,<br/>वास्तुकार तथा इंजीनियर, 24 26,<br/>दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई ।</p> <p>38. श्री सी० आर० नारायण राय,<br/>चार्टर्ड इंजीनियर,<br/>6-जी० कम्प्रा गम्बल नगर<br/>लुज माइलापुर, मद्रास-600004</p> | } | <p>खंड 3 के उपखंड (3) की धारा<br/>(छ) के अन्तर्गत इंजीनियरों<br/>(भारत) को संस्था द्वारा<br/>नामजद ।</p> |
| <p>39. श्री पी० गाडी,<br/>5-वी० राजपत राय रोड,<br/>जंगपुरा, एकम्प्टेमन,<br/>नई दिल्ली-14</p>  |   | <p>खण्ड 3 के उपखण्ड (3) की धारा<br/>(ज) के अन्तर्गत भारत के सर्वेक्षकों<br/>की संख्या द्वारा नामजद ।</p> |

2. केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा श्राव्य यह भी विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त धारा की उप-धारा (4) और (5) के अन्तर्गत नामजद सदस्य, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से क्रमशः तीन वर्ष की अवधि तक अथवा उनके उत्तराधिकारियों के विधिवत चुने तथा नामजद किए जाने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर कार्य करेंगे ।

[सं० फा० 12-5/72 टा० I]

अ० बू० चन्दीरामाणी,

सयुक्त शिक्षा सलाहकार ।

